



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 198]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 1981/वैशाख 22, 1903

No. 198]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 1981/VAISAKHA 22, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 1981

का० अ० 355(अ).—बीजरहित इमली श्रेणीकरण और चिह्नतांकन (संशोधन) नियम, 1980 का एक प्रावप, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नतांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 की अपेक्षाानुसार, भारत सरकार के ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० अ० 1623, तारीख 29 मई, 1980 के अधीन, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (2), तारीख 14 जून, 1980 के पृष्ठ 1900 से 1903 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, पैंतासीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व उन सभी व्यक्तियों से आशेष और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 20 जून, 1980 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रावप की बाबत जनता से प्राप्त टीका टिप्पणियों/सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अन', केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बीजरहित हमली श्रेणीकरण और चिह्नानकन (संशोधन) नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बीजरहित हमली श्रेणीकरण और चिह्नानकन नियम, 1971 से,

(1) नियम 3 में, "अनुसूची" शब्द के स्थान पर "अनुसूची 1 और 2" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(2) नियम 4 में, "अनुसूची के स्तंभ 2 से 8 तक" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अनुसूची 1 और 2 के स्तंभ 2 से 6 तक" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(3) नियम 7 के उपनियम (1) में, खण्ड (4) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"कृषि विपणन सलाहकार या हम संबंध से उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्वानुमोदन से किसी अन्य किस्मों के यात्रों में और/या आकारों में की जाएगी"।

(4) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

### अनुसूची 1

(नियम 3 और 4 देखिए)

हल्के लाल से चमकीले भूरे रंग की बीजरहित हमली का श्रेणी अभियान और क्वालिटी परिभाषा

श्रेणी अभियान	विशेष लक्षण (अधिकतम सहन सीमा)			साधारण लक्षण	
	नमी (भार के आधार पर प्रतिशत) (अधिकतम)	बीज तत्व (भार के आधार पर प्रतिशत) (अधिकतम)	विजातीय पदार्थ (भार के आधार पर प्रतिशत) (अधिकतम)	अकार्बनिक*	अकार्बनिक**
1	2	3	4	5	6
विशेष	15.0	5.0	4.0	1.0	1. हमली का गूदा टेमरिडस छड़िका के परियन्त फल से पहले छिलके को और फिर सूखे और बीज के ऊपर की तन्तुमय सिल्ली को उतारने के बाद प्राप्त किया जाएगा।
क श्रेणी	17.0	10.0	6.0	1.5	(2) गूदा अच्छी तरह सुखाया जाएगा और केक के रूप में संपीकृत किया जाएगा।
ख श्रेणी	20.0	15.0	8.0	2.0	(3) गूदा कीट प्रभाव से या जीवित कीट, कफूदी और रोडेड सङ्ग्रहण से मुक्त होगा।
ग श्रेणी	20.0	20.0	10.0	2.0	(4) केक हल्के लाल से चमकीले भूरे रंग का होगा।
अनिर्दिष्ट†	—	—	—	—	(5) गूदे में हमली का ही विशिष्ट स्वाद और रस होगा और यह किसी भी प्रकार की दुर्गंध से मुक्त होगा।

\*कार्बनिक विजातीय पदार्थ के अन्तर्गत फल के छन्दा भाग, जैसे फाइबर, स्ट्रण्ड और छिलके होंगे।

\*\*अकार्बनिक—विजातीय पदार्थ, से पत्थर, गद्दे, धूल और अकार्बनिक प्रकृति का कोई अन्य विजातीय पदार्थ अभिप्रेत है।

†अनिर्दिष्ट श्रेणी किसी विदेशी क्रेता द्वारा वाछित उपज की मात्रा और क्वालिटी उपदर्शन करने हुए, उनके "निर्दिष्ट आदेश" पर ही अनुज्ञात की जाएगी।

नमक-बीजरहित हमली में यदि नमक तत्व मौजूब है तो वह 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

## अनुसूची 2

(निबन्ध 3 और देखिए)

काले रंग या मिश्रित रंग की बीज रहित इमली का श्रेणी अभियान और क्वालिटी परिभाषा

श्रेणी अभियान	विशेष लक्षण (अधिकतम सहन सीमा)				साधारण लक्षण
	नमी (भार के आधार पर प्रतिशत) (अधिकतम)	बीज तत्व (भार के आधार पर प्रतिशत) (अधिकतम)	विजातीय (भार के आधार पर प्रतिशत) (अधिकतम)	पदार्थ	
				कार्बनिक**	अकार्बनिक**
1	2	3	4	5	6
विशेष	15.0	5.0	4.0	1.0	1. इमली का गुदा टेमेरिडम इंडिका के परिपक्व फल में पहले छिलके को और फिर गूदे और बीज के ऊपर की तन्तुमय झिल्ली को उतारने के बाद प्राप्त किया जाएगा।
क श्रेणी	17.0	10.0	6.0	1.0	2. गुदा अच्छी तरह सुखाया जाएगा और केक के रूप में संग्रहीत किया जाएगा।
ख श्रेणी	20.0	15.0	8.0	2.0	3. गुदा कीट प्रभाव से या जीवन कीट, फफूंदी और रोडेंट संदूषण से मुक्त होगा।
ग श्रेणी	25.0	20.0	10.0	2.0	4. केक हल्के से गाढ़े काले रंग का या हल्के लाल से चमकीले भूरे और काले रंगों का मिश्रण या उनके विनरीत होगा।
अतिनिर्दिष्ट†	—	—	—	—	5. गूदे में इमली का ही विनिष्ट स्वाद और गंध होगा और वह किसी भी प्रकार की दुर्गन्ध से मुक्त होगा।

\*कार्बनिक—विजातीय पदार्थ के अंतर्गत फल के अन्य भाग, जैसे फाइबर, स्ट्रॉण्ड और छिलके होंगे।

\*\*अकार्बनिक—विजातीय पदार्थ में पत्थर, गर्द, धूल और अकार्बनिक पदार्थ का कोई अन्य विजातीय पदार्थ अभिनेत है।

†अतिनिर्दिष्ट श्रेणी किसी विदेशी क्रेता द्वारा वांछित उपज की मात्रा और क्वालिटी उपदर्शित करते हुए उसके "निर्दिष्ट आदेश" पर ही अनुज्ञात की जाएगी।

नमक : बीज रहित इमली में यदि नमक तत्व मौजूद हैं तो वह 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

[सं० प० 10-3/79-एम]

गन्धर्व सिंह, अवसर सचिव

## MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION

## NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 1981.

**S.O. 355(E).**—Whereas a draft of the Seedless Tamarind Grading and Marking (Amendment) Rules, 1980, was published, as required by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), at pages 1900 to 1903 of the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section(ii), dated the 14th June, 1980, under the notification of the Government of India in the Ministry of Rural Reconstruction, No. S.O. 1623, dated the 29th May, 1980, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of fortyfive days from the date on which the copies of the Gazette in which the said notification is published are made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 20th June, 1980.

And whereas comments/suggestions received from the public in respect of the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. (1) These rules may be called the Seedless Tamarind Grading and Marking (Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Seedless Tamarind Grading and Marking Rules, 1971,—

(1) In rule 3, for the word "Schedule", the words and figures "Schedule I and II" shall be substituted.

(2) In rule 4, the words and figures "2 to 8 of the Schedule", the words and figures "2 to 6 of the Schedules I and II" shall be substituted.

(3) In rule 7, in sub-rule (1), after clause (iv), the following shall be added, namely :—

"(v) in any other types of containers and/or sizes with the prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this regard."

(4) for the Schedule, the following Schedules shall be substituted, namely :—

#### SCHEDULE I

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of Seedless Tamarind, Light Red to Tinged Brown Colour.

Grade designation	Special characteristics (Maximum limit of tolerance)				General Characteristics
	Moisture (per cent by weight) (Maximum)	Seed content (per cent by weight) (Maximum)	Foreign matter (per cent by weight) (Maximum)		
			Organic*	Inorganic**	
1	2	3	4	5	6
Special	15.0	5.0	4.0	1.0	1. The Tamarind pulp shall have been obtained from the mature fruits of <i>Tamarindus indica</i> , by removing first the rind and then the fibrous skeleton enclosing the pulp and the seeds. 2. The pulp shall be well dried and compressed into cakes. 3. The pulp shall be free from insect infestation or live insects, mould rodent contamination and deleterious substances. 4. The colour of the cake shall be light red to tinged brown. 5. The pulp shall have the characteristic taste and flavour and shall be free from any obnoxious odour.
A Grade	17.0	10.0	6.0	1.5	
B Grade	20.0	15.0	8.0	2.0	
C Grade	20.0	20.0	10.0	2.0	
Non-specified†	..	..	..	..	

\*Organic—Foreign matter will consist of other parts of fruit which as fibre strand and rind.

\*\*Inorganic—Foreign matter means stones, dust, dirt and any other foreign material of inorganic nature.

†Non-specified Grade shall be allowed only against a "specific order" from the foreign buyer indicating the quantity and quality of the produce desired.

Salt : Salt content in seedless Tamarind, if present, all not exceed 2%.

## SCHEDULE II

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of Seedless Tamarind, Black colour or mixed colour.

Grade designation	Special characteristics (Maximum limit of tolerance)				General characteristics
	Moisture (per cent by weight) (Maximum)	Seed content (per cent by weight) (Maximum)	Foreign matter (per cent by weight) (Maximum)		
			Organic*	Inorganic**	
1	2	3	4	5	6
Special	15.0	5.0	4.0	1.0	<p>1. The Tamarind pulp shall have been obtained from the mature fruits of <i>Tamarindus Indica</i> by removing first the rind and then the fibrous skeleton enclosing the pulp and the seed.</p> <p>2. The pulp shall be well dried and compressed into cakes.</p> <p>3. The pulp shall be free from insect infestation or live insects, mould rodent contamination and deleterious substances.</p> <p>4. The colour of cake shall be light to Dark black or mixture of light red to tinged brown and black colours vice versa.</p> <p>5. The pulp shall have the characteristic taste and flavour and shall be free from any obnoxious odour.</p>
A Grade	17.0	10.0	6.0	1.0	
B Grade	20.0	15.0	8.0	2.0	
C Grade	25.0	20.0	10.0	2.0	
Non-specified†	..	..	..	..	

\*Organic—Foreign matter will consist of other parts of the fruit such as fibre strand and rind.

\*\*Inorganic—Foreign matter means stones, dust, dirt and any other foreign material of inorganic nature.

†Non-specified Grade shall be; allowed only against a "specific order" from the foreign buyer indicating the quality and quantity of the produce desired.

Salt : The salt content in seedless tamarind, if present, shall not exceed 2%.

[No. F. 10-3/79-AM]  
GANDHARV SINGH, Under Secy.

